

# PATBACK BUSINESS LIMITED

Regd. Office: Shop No. 325, Plot No.3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, Delhi-110085  
E-mail: crazypricingdel@gmail.com ,Website: www.patback.in,Tel.No. 011-27860681  
CIN:L74999DL1984PLC018747

---

January 10, 2025

To,  
**Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI)**  
205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park,  
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West),  
Mumbai - 400070

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of Un-audited financial results approved in the board meeting held on Thursday, 09th day of January, 2025 for the quarter and nine months ended December 31, 2024

**SYM: PATBACK**  
**ISIN: INE401L01019**

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of Un-audited financial results approved in the board meeting held on Thursday, 09th day of January, 2025 for the quarter and nine months ended December 31, 2024 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Friday, January 10, 2025.

Please find enclosed the copy of the same.

Thanking You,  
Yours truly

**For Patback Business Limited**

**Pawan Kumar Mittal**  
**Director**  
**DIN: 00749265**

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

**Form No. INC-26**  
(Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
**Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi**  
In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

**AND**  
In the matter of **NALWA STEEL AND POWER LIMITED** (CIN: U74890DL1989PLC035212) having its Registered Office at **28, NAJAFGARH ROAD, WEST DELHI, NEW DELHI - 110015**

.....Applicant Company / Petitioner

NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make an application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **14<sup>th</sup> December, 2024** to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Chhattisgarh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the **MCA-21 portal (www.mca.gov.in)** by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its Registered Office at the address mentioned below:-  
**28, NAJAFGARH ROAD, WEST DELHI, NEW DELHI - 110015**

For, and on behalf of  
**NALWA STEEL AND POWER LIMITED**  
**Sd/-**  
**RAVI SHANKER TIWARI**  
(COMPANY SECRETARY)

Date : 09.01.2025 | Place : Delhi

MISHKA EXIM LIMITED CIN L51909DL2014PLC270810 Rgd. Off. F-14, First Floor, Cross River Mall, CBD Ground, Shahdara New Delhi-110032, email : mishkaexim@gmail.com													
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024 (Rs. In Lakhs, except per share data)													
Sl. No.	Particulars	Consolidated						Standalone					
		Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 31.12.2023	Nine Months Ended 31.12.2024	Nine Months Ended 31.12.2023	Year ended 31.03.2024	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 31.12.2023	Nine Months Ended 31.12.2024	Nine Months Ended 31.12.2023	Year ended 31.03.2024
1	Total Income from operations (net)	70.34	129.08	53.00	345.79	106.83	440.19	63.93	129.08	43.62	339.38	74.96	386.80
2	Net Profit/(Loss) before tax (before Exceptional items)	5.40	16.79	5.24	28.70	(2.91)	38.60	0.97	13.93	(6.59)	23.15	(15.47)	31.83
3	Net Profit/(Loss) before tax (after Exceptional items)	5.40	16.79	5.24	28.70	(2.91)	38.60	0.97	13.93	(6.59)	23.15	(15.47)	31.83
4	Net Profit/(Loss) after tax (after Exceptional items)	3.88	13.76	4.30	21.17	(5.65)	25.47	0.69	10.70	(5.29)	16.66	(15.75)	18.91
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising profit/(Loss) for the period after Tax & other comprehensive income after Tax)	3.88	22.33	4.30	29.74	23.01	54.13	0.69	15.02	(5.29)	20.98	(1.07)	33.59
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1445.00	1445.00	1445.00	1,445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1,445.00
7	Other Equity	-	-	-	-	-	716.96	-	-	-	-	-	329.56
8	Earnings Per Share (of Rs.10 each) not annualised - Basic & Diluted	0.03	0.10	0.03	0.15	(0.04)	0.18	0.01	0.07	(0.04)	0.12	(0.11)	0.13
Notes:-													
1 The above is an extract of detailed format of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2024 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results is available on www.bseindia.com and www.mishkaexim.com.													
2 The Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board Of Directors at the meeting held on 09.01.2025.													
3 The figures of the previous period/year have been regrouped/rearranged wherever necessary to make them comparable with current period's figure.													
For MISHKA EXIM LIMITED Sd/- RAJNEESH GUPTA (MANAGING DIRECTOR) DIN No.00132141													
Place : Delhi Dated : 09.01.2025													

For MISHKA EXIM LIMITED  
**Sd/-**  
**RAJNEESH GUPTA**  
(MANAGING DIRECTOR)  
DIN No.00132141

PATBACK BUSINESS LIMITED Regd. off: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Email: <a href="mailto:crazypricingdel@gmail.com">crazypricingdel@gmail.com</a> , website: <a href="http://www.patback.in">www.patback.in</a> Ph No: 011-27860580, CIN: L74999DL1984PLC018747 Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results For the Quarter and nine months ended December 31, 2024				
S. No.	Particulars	Quarter Ended 31/12/2024 (Unaudited)	Year to date figures nine months ended 31/12/2024 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 31/12/2023 (Unaudited)
1.	Total income from operations	493.64	500.41	92.88
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	54.45	48.63	(3.74)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	54.45	48.63	(3.74)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	42.22	36.39	(3.74)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	42.22	36.39	(3.74)
6.	Equity Share Capital	1024.80	1024.80	24.80
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	443.16	443.16	73.14
8.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic : 2. Diluted :	0.41 0.41	0.36 0.36	(1.51) (1.51)
<b>Notes:</b> 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Un-audited Financial Results are available on the website of the Company i.e (www.patback.in) and website of the stock Exchange(s) (www.mseil.in). 2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 09th January, 2025. 3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended). <b>For and on behalf of the Board of Directors of Patback Business Limited</b> <b>Sd/-</b> <b>Pawan Kumar Mittal</b> (Director) DIN: 00749265 <b>Date: 09.01.2025</b> <b>Place: New Delhi</b>				

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI 4TH FLOOR, JEEVAN TARA BUILDING, PARLIAMENT STREET, NEW DELHI-110001. OA 535/2023	
<b>HDFC BANK VS M/S BANYAN INDUSTRIES</b> To: (1) <b>M/s Banyan Industries Prop.</b> M/s Anil Jain Gt, 290-291 Pocket E-20 Sector 3 Rohini, Delhi - 110085 North Delhi - 110085 Also At: 177, Hsidd Industrial Area, Phase-I, Tehsil Gannour Barhi Sonapat -131101, Haryana, India (2) <b>M/s Anjali Jain W/o Puneet Jain</b> M/s Anjali Jain W/o Mr. Puneet Jain, R/o House No.24, Block-F-22, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 Whereas the above-named applicant has instituted a case for recovery of Rs.57,54,295.14/- (Rupees Fifty-seven Lakh Fifty-Four Thousand Two Hundred Ninety-Five And Fourteen Paise Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before On Ld. Registrar on 24.04.2025 at 10:30 A.M. IST (for further details kindly visit DRT website <a href="http://www.tribunal.gov.in">www.tribunal.gov.in</a> Phone Number: 011-23748473). Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence. <b>All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose :- (i) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex" application / Software: (ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by Registrar/Recovery Officer-II and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the Public Notice Head. (iii) In any exigency qua that, the Advocates/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473. Given under my hand and seal of the Tribunal on this 06th Jan., 2024. Respondent may contact under mention Phone number for further enquiry, Ld. Registrar, DRT-I, New Delhi Ph. No. 011-23748473. Email : <a href="mailto:drt1delhi-dfs@nic.in">drt1delhi-dfs@nic.in</a> By order of this Tribunal Assistant Registrar</b>	

GOVERNMENT OF TAMIL NADU PROJECT DEVELOPMENT GRANT FUND (PDGF) INVITATION FOR PROPOSALS (IFP) Consulting services Ref: PDGF/GoTNP/PPP-Experts/Jan/2025				
1. Project Development Grant Fund (PDGF) intends to appoint a firm to provide the following consulting services as detailed in the table given below:				
Description of Services	Estimated Value incl. GST in Rs.	EMD in Rs.	e-Tender Submission last date	e-Tender Opening date
Appointment of "Consultancy Firm for providing Advisory Services for Public Private Partnership Projects for Municipal Administration & Water Supply Department"	4,00,00,000/-	4,00,000/-	13-02-2025 upto 10.30 hrs.	13-02-2025 on 15.00 hrs.
1. The assignment is open to all eligible firms. The Request for Proposals (RFP) may be downloaded and used free of cost from the website viz. <a href="http://www.intenders.gov.in">www.intenders.gov.in</a> . 2. A pre-proposal conference will be held on 24.01.2025 at 11.00 am in the office of TNUISFL, to clarify queries, if any as stated in the RFP. 3. Proposals complete in all aspects must be submitted online through the Tamil Nadu e-Procurement website, as specified in the RFP. 4. Any Clarifications, Minutes of Pre-proposal meeting, Extension of time and Addendum & Corrigendum issued will be uploaded only in the Tamil Nadu e-Procurement website. Other details are available in the RFP. <b>Additional Chief Secretary / Chairman &amp; Managing Director, TNUISFL</b> <b>Fund Manager of PDGF</b> <b>DIPR/121/TENDER/2025</b>				

<b>FORM A</b> <b>PUBLIC ANNOUNCEMENT</b> [Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016] <b>FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF RICHFIELD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED</b>	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of Corporate Debtor:	<b>RICHFIELD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED</b>
2. Date of incorporation of Corporate Debtor	09.03.2012
3. Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies - Delhi
4. Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor	U154000DL2012PTC232590
5. Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor	<b>Registered Office:</b> F-213, E-1, Lido Sarai, South Delhi, New Delhi-110030 <b>Unit At:</b> A 144, EPIP, Neemrana, Alwar, Rajasthan - 301705
6. Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	<b>20.12.2024</b> (Copy of order received on 08.01.2025)
7. Estimated date of closure of insolvency resolution process	<b>18th June, 2025</b> (180th day from the date of Commencement of Insolvency Resolution Process)
8. Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional	<b>Vikram Bajaj</b> <b>Reg. No.:</b> IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-17/10003 <b>AFA Valid Upto:</b> 31.12.2025
9. Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board	214, Second Floor, Tower A, Spazedge, Tower A, Sector 47, Gurgaon, Gurgaon, Haryana, 122018 <b>Email:</b> <a href="mailto:vikram@gmail.com">vikram@gmail.com</a>
10. Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional	<b>Immaculate Resolution Professionals Private Limited</b> Unit No. 112, First Floor, Tower-A, Spazedge Commercial Complex, Sector-47, Sohna Road, Gurgaon-122018 <b>Email:</b> <a href="mailto:ibc.richfield@gmail.com">ibc.richfield@gmail.com</a>
11. Last date for submission of claims	<b>22.01.2025</b>
12. Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (8A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional	Not Applicable
13. Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in class (three names for each class)	Not Applicable
14. (a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives available at:	(a) Web link: <a href="http://ibbi.gov.in">ibbi.gov.in</a> (b) Not Applicable
Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench (Court-II) has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the <b>RICHFIELD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED</b> 20th December on 2024. The creditors of <b>RICHFIELD INDUSTRIES PRIVATE LIMITED</b> , are hereby called upon to submit their claims with proof on or before <b>22nd January, 2025</b> to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. <b>Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.</b> <b>Sd/-</b> <b>Vikram Bajaj</b> <b>Date:</b> 09.01.2025 <b>Place:</b> Delhi <b>Interim Resolution Professional for Richfield Industries Private Limited.</b> <b>Regn. No:</b> IBBI/IPA-002/IP-N00003/2016-17/10003	

IDFC FIRST Bank

IDFC FIRST Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

CIN : L65110TN2014PLC097792

Registered Office: - KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.

Tel : +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers availed the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice
1	101237896	LOAN AGAINST PROPERTY	1. RAVI KUMAR 2. SAKSHI SAKSHI	28.12.2024	16,67,976.79/-
PROPERTY ADDRESS : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF APARTMENT NO.C-805, HAVING SUPER AREA 670 SQ. FT., CARPET AREA 34.44 SQ. MTR. (342.62 SQ. FT.), TYPE 2 BHK ON 8TH FLOOR IN TOWER B, BLOCK-C, IN THE PROJECT KNOWN AS "KLASSIC HOMZ" SITUATED AT RAJ NAGAR EXTENSION, DISTRICT: GHAZIABAD, UTTAR PRADESH-201017.					
Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice
2	34596070.	HOME LOAN	1.MR. SHAILENDRA SINGH 2.MR. DABBU SINGH	27-12-2024	25,24,639.82/-
PROPERTY ADDRESS : ALL THAT PIECE AND PARCEL OF RESIDENTIAL HOUSE NO.525, ADMEASURING 103 SQ. YDS. I.E. 86.118 SQ. MTR., TOTAL COVERED AREA 86.118 SQ. MTR., GALI NO. 8, SITUATED AT KAILASH NAGAR, KHASRA NO. 274 MIN., PARGANA LONI, TEHSIL & DISTT GHAZIABAD, UTTAR PRADESH - 201009, BOUNDED AS: EAST-RASTA 10 FT. WIDE, WEST: HOUSE OF BRAJ SINGH, NORTH:HOUSE OF CHANDRAKALI AND OTHERS, SOUTH: HOUSE OF UMESH CHANDRA					

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Sd/-

Authorized Officer

IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC FIRST Bank Limited)

Date : 10.01.2025

Place : UTTAR PRADESH

BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI COMPANY APPLICATION NO. OF 2025 IN THE MATTER OF APPLICATION UNDER SECTION 13(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND IN THE MATTER OF ADVENTURE PHARMA PRIVATE LIMITED ("THE COMPANY") (CIN: U51987DL2008PTC184593) HAVING REGISTERED OFFICE AT 146, JASOLA VIHAR POCKET I NEW DELHI-110025 .....APPLICANT	
Notice is hereby given to the general public that the Company proposes to make the application to the Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation for alteration of Memorandum of Association of the Company in term of Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on 10th Day of December, 2024 to enable the Company to change its Registered Office from the "NCT of Delhi" to the "State of Haryana". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal ( <a href="http://www.mca.gov.in">www.mca.gov.in</a> ) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, Delhi within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: <b>Address of Registered Office: 146 Jasola Vihar Pocket I New Delhi-110025</b> <b>For Adventure Pharma Private Limited</b> <b>Sd/-</b> <b>Pankaj Mehra</b> <b>Director</b> <b>Date: 10.01.2025</b> <b>Place: New Delhi</b> <b>Date: 10.01.2025</b> <b>DIN: 00259679</b>	

<b>Cholamandalam Investment and Finance Company Limited</b> <b>Corporate Office:</b> " CHOLA CREST " C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032 <b>Branch Office:</b> 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 <b>Contact No:</b> <b>Mr. Srinivas V, Mob.No. 9643344410</b>				
<b>Sale of Movable properties by M/s Cholamandalam Investment and Finance Company Limited under SARFAESI Act, 2002.</b> <b>Loan Account No. X0HEELD00001592004 &amp; X0HEELD00001771250</b> <b>of SADAN KUMAR and Y Others</b>				
<b>E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE ASSET UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ THE PROVISION TO RULE 6(2) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.</b> Notice is hereby given to the public in general and particular to the respective Borrower (s) and Guarantor (s) mentioned below that the below described movable property, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD., DELHI Branch, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on <b>08.08.2023</b> , for recovery of respective amount as mentioned in the table below and cost, charges and expenses due to CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD., Delhi Branch from the respective Borrowers.				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Name of the Borrowers and Guarantors	Description Of The Movable to be Auctioned	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Known encumbrances, if any
SADAN KUMAR (BORROWER) RUPA, NIKHIL & R.N.G COATERS	Weighting Machine, Wooden Table, Chair, Seating Table, Gas Stove with 4 Burner, Gas Stove with 2 Burner , Steel Rack, Ceiling Fan, Double Bed, Wooden Temple, Wooden Window Frame, Wooden Rack, Table Fan, Small Cylinder, Gas Stove with 4 Burner, Gas Stove with 2 Burner & other small parts	<b>Rs. 35,000/-</b>	<b>Rs. 3,500/-</b>	<b>Nil</b>
<b>Date &amp; Time of Auction Sale 30.01.2025 from 11:00 AM to 12:00 noon(with unlimited auto extension of 5 min)</b> <b>Last date of submission of Tender 29.01.2025 by 5:00 PM</b>				
<b>All the interested participants / bidders are requested to visit the website <a href="https://chola-lap.procure247.com/">https://chola-lap.procure247.com/</a> &amp; <a href="https://www.cholamandalam.com/auction-notices">https://www.cholamandalam.com/auction-notices</a>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Vashu Patel 9510974587. For further details on terms and conditions please visit <a href="https://chola-lap.procure247.com/">https://chola-lap.procure247.com/</a> &amp; <a href="https://www.cholamandalam.com/auction-notices">https://www.cholamandalam.com/auction-notices</a> to take part in e-auction."</b> <b>Place: DELHI/NCR Date : 10-01-2025</b> <b>Sd/- Authorised Officer Cholamandalam Investment and Finance Company Limited</b>				

<b>Cholamandalam Investment and Finance Company Limited</b> <b>Corporate Office:</b> " CHOLA CREST " C 54 & 55, Super B – 4, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600032 <b>Branch Office:</b> 1st & 2nd Floor, Plot No.6, Main Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 <b>Contact No:</b> <b>Mr. Srinivas V, Mob.No. 9643344410</b>				
<b>Sale of Movable properties by M/s Cholamandalam Investment and Finance Company Limited under SARFAESI Act, 2002.</b> <b>Loan Account No. X0HEEDHE00001285918</b> <b>of Late Ankit Singh (Through its Legal Heirs) &amp; 1 Other</b>				
<b>E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE ASSET UNDER THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ THE PROVISION TO RULE 6(2) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.</b> Notice is hereby given to the public in general and particular to the respective Borrower (s) and Guarantor (s) mentioned below that the below described movable property, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD., DELHI Branch, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on <b>24.02.2020</b> , for recovery of respective amount as mentioned in the table below and cost, charges and expenses due to CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD., Delhi Branch from the respective Borrowers.				
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
Name of the Borrowers and Guarantors	Description Of The Movable to be Auctioned	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Known encumbrances, if any
Late Ankit Singh (THROUGH ITS LEGAL HEIRS) (BORROWER) Jaiwanti Sherawat	Sofa 7 Seater-1, Window AC-1, Temple-1, Seating stools-2, Center table-1, Ceiling fan-2, Chandelier-1, Fancy lights-2, Curtains-1, Wall paintings-1, Dining table-1, Corner rock side showcase-1, Iron almira-1, Iron trunk-1, Curtains-1, Bed-1, Television (Samsung)-1, Almira- Full of Clothes-1, Iron trunk-1, Suitcase-6, Wall clock-1, Tube light-1, Ceiling fan-1, Chair-1, Bed-1, Music system-1, Sliding side Almira-1, Window AC-1, Wooden Almira- Full of Clothes-1, Stove-1, Water purifier-1, Refrigerator-1, Chimney-1, Utensils-1, Window AC-1, Wall Clock-1, LCD (Samsung)-1, Bed-1, Side stools-2, other related household items.	<b>Rs. 35,000/-</b>	<b>Rs. 3,500/-</b>	<b>Nil</b>
<b>Date &amp; Time of Auction Sale 18.02.2025 from 11:00 AM to 12:00 noon(with unlimited auto extension of 5 min)</b> <b>Last date of submission of Tender 17.02.2025 by 5:00 PM</b>				
<b>All the interested participants / bidders are requested to visit the website <a href="https://chola-lap.procure247.com/">https://chola-lap.procure247.com/</a> &amp; <a href="https://www.cholamandalam.com/auction-notices">https://www.cholamandalam.com/auction-notices</a>. For details, help, procedure and online training on e-auction, prospective bidders may contact Vashu Patel 9510974587. For further details on terms and conditions please visit <a href="https://chola-lap.procure247.com/">https://chola-lap.procure247.com/</a> &amp; <a href="https://www.cholamandalam.com/auction-notices">https://www.cholamandalam.com/auction-notices</a> to take part in e-auction."</b> <b>Place: DELHI/NCR Date : 10-01-2025</b> <b>Sd/- Authorised Officer Cholamandalam Investment and Finance Company Limited</b>				

<b>Cholamandalam Investment and Finance Company Limited</b> <b>Corporate Office:</b> " CHOLA CREST " C 54 & 55, Super B – 4, Thiru
---

Form No.URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI [Pursuant to section 374(b) of the companies Act,2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code -122050 that **SAARIA INTERNATIONAL** a partnership firm, may be registered under PartI of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Private Company limited by shares 2. The principal objects of the company are as follows: To carry on business and profession of Trading, manufacturing, merchant export, intermediary trading of all kind of readymade garments and fabric, all kind of leather goods including footwear (shoes), apparels, saddlery, belt, bags & accessories, safety shoes, footwear upper, fitting material, treeless saddler and all type of leather and Job Work 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 88/25, Pokharpur, Jajmau, Kanpur 208010. 4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty One days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office at 88/25, Pokharpur, Jajmau, Kanpur 208010.

Name(s) of Applicant

1. MOHD SARFARAZ

2. SHAKIL AHMED

Dated this 09<sup>th</sup> day of January 2024

स्थान : दिल्ली  
तिथि : 09.01.2025

मिशका एक्जिम लिमिटेड CIN L51909DL2014PLC270810													
पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : एक-14,प्रथम मंजिल, क्रास रिवर माल, सीबीडी ग्राऊन्ड, शाहदरा, दिल्ली - 110032, email:mishkaexim@gmail.com													
31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार													
क्र० सं०		विवरण	समेकित					एकीकृत					
			समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 30.09.2024	समाप्त तिमाही 31.12.2023	समाप्त नौमाही 31.12.2024	समाप्त नौमाही 31.12.2023	समाप्त वार्षिक 31.03.2024	समाप्त तिमाही 31.12.2024	समाप्त तिमाही 30.09.2024	समाप्त तिमाही 31.12.2023	समाप्त नौमाही 31.12.2024	समाप्त नौमाही 31.12.2023
1		संचालन से कुल आय (नेट)	70.34	129.08	53.00	345.79	106.83	440.19	63.93	129.08	43.62	339.38	386.80
2		कर से पहले नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों से पहले)	5.40	16.79	5.24	28.70	(2.91)	38.60	0.97	13.93	(6.59)	23.15	31.83
3		कर से पहले नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	5.40	16.79	5.24	28.70	(2.91)	38.60	0.97	13.93	(6.59)	23.15	31.83
4		कर के बाद नेट लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद)	3.88	13.76	4.30	21.17	(5.65)	25.47	0.69	10.70	(5.29)	16.66	18.91
5		अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	3.88	22.33	4.30	29.74	23.01	54.13	0.69	15.02	(5.29)	20.98	33.59
6		युक्तता इक्वीटी शेयर कैपिटल (सममूल्य रूप 10/- प्रत्येक)	1445.00	1445.00	1445.00	1,445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1445.00	1,445.00
7		अन्य इक्वीटी	-	-	-	-	-	716.96	-	-	-	-	329.56
8		प्रति शेयर आय (सममूल्य रूप 10/- प्रत्येक) (वाचिकीकृत नहीं)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-मूल एवं वरल	0.03	0.10	0.03	0.15	(0.04)	0.18	0.01	0.07	(0.04)	0.12	(0.11)
टिप्पणीयों <span> </span> :													
1 सेबी (लिरिटिंग दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 अन्तर्गत उपरोक्त तिमाही एवं नौमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विस्तारित उद्घरित सार स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया। तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> एवं कम्पनी की वेबसाइट <a href="http://www.mishkaexim.com">www.mishkaexim.com</a> पर उपलब्ध है।													
2 अंकअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की अंकेक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल की 09.01.2025 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किये गये।													
3 पिछले अवधि/वर्ष के आकड़ें वर्तमान अवधि की पुष्टि करने के लिए जहाँ पर आवश्यक हो, पुर्नगठित एवं पुर्नव्यस्थित किये गये हैं।													
स्थान <span> </span> : दिल्ली													
तिथि <span> </span> : 09.01.2025													

कृते मिशका एक्जिम लिमिटेड  
हस्तां/-  
रजनीश गुप्ता  
प्रबन्ध निदेशक  
DIN No.00132141

VICEROYHOTELS

VICEROY HOTELS LIMITED

(CIN- L55101TG1965PLC001048)

Our Company was originally incorporated as "Krishna Cold Drinks Private Limited" at Andhra Pradesh, Hyderabad as a Private Limited Company under the provision of Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated February 25, 1965 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Subsequently Company changed its name to "Shri Krishna Bottlers Private Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated November 23, 1966 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Further, the Company changed its name to "Palace Heights Hotels Private Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated September, 25, 1990 issued by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad and later Company was converted into a Public Limited Company and the name of the Company was "Palace Heights Hotels Limited" by a special resolution passed on September, 27, 1990. A fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion was issued on September, 28, 1990 by the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad. Subsequently, the name of our Company was further changed to "Viceroy Hotels Limited" vide fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated September, 21, 2001 issued by the Registrar of Companies, Hyderabad. For further details please refer to the section titled "General Information" beginning on page 56 of the Letter of offer.

Registered Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Aparna Crest, 8-2-120/112/88 & 89, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Khairatabad, Telangana, India, 500034;  
Tel: +91 040 - 40204383; Email: [secretarial@viceroypatel.in](mailto:secretarial@viceroypatel.in); Website: [www.viceroypatel.in](http://www.viceroypatel.in)  
Contact Person: Mr. C. Siva Kumar Reddy, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: M/S. LOKO HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

THE ISSUE

ISSUE OF 44,21,053 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF VICEROY HOTELS LIMITED ("VHLTD" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 112.00 PER EQUITY SHARE (INCLUDING PREMIUM OF RS.102.00 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING RS. 4,951.58 LACS TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 7 (SEVEN) EQUITY SHARES FOR EVERY 10 (TEN) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE PUBLIC SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E.29<sup>th</sup> NOVEMBER, 2024 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS 11.20 TIMES OF FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 153 OF THE LETTER OF OFFER.

The Board of Directors of our Company thanks all its shareholders and investors for their response to the Company's Rights Issue of Equity Shares, which opened for subscription on Thursday, December 12, 2024 and closed on Tuesday, December 24, 2024 and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Wednesday December 18, 2024. Out of the total 2,156 Applications for 56,21,407 Rights Equity Shares, 356 Applications for 6,73,367 Rights Equity Shares were rejected on grounds of "technical reasons" as disclosed in the Letter of Offer. The total numbers of valid applications were 1,800 for 49,48,040 Rights Equity Shares, which was 111.92% of the number of Rights Equity Shares allotted under the Issue. Our Company in consultation with Registrar to the Issue and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange on December 31, 2024, approved the allotment of 44,21,053 fully paid-up Rights Equity Shares to the successful applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid applications have been considered for allotment.

1. The break-up of valid applications received through ASBA (after Technical Rejections) is given below:

Applicants	Number of valid applications received	Number of Rights Equity Shares Allotted - against Entitlement (A)	Number of Rights Equity Shares Allotted - Against valid additional shares (including fractional shares accepted) (B)	Number of Rights Equity Shares Allotted - (A + B)
Eligible Equity Shareholders	1,626	17,08,106	11,84,281	28,92,387
Renouncees	174	15,28,666	0	15,28,666
Total	1,800	32,36,772	11,84,281	44,21,053

2. Information regarding applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares Allotted	
	Number	%	Number	Value (In Rs.)	Number	Value (In Rs.)
Eligible Equity Shareholders	1,626	75.42%	38,54,950	43,17,54,400	32,26,406	36,13,54,472
Renouncees	530	24.58%	17,66,457	19,78,43,184	31,42,21	19,28,23,008
Total	2,156	100%	56,21,407	62,95,97,584	49,48,040	55,41,80,480

**Intimations for Allotment / Refund / Rejections Cases:** The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, has been completed on January 03, 2025. The instructions to (i) Self Certified Syndicate Bank ("SCSBs") for unblocking of funds in case of ASBA applications were given on January 01, 2025. The listing application was executed with BSE on January 01, 2025 and NSE on January 02, 2025. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respective demat accounts of Allottees has been completed with NSDL and CDSL on January 08, 2025 respectively. No physical shares were allotted in the Rights Issue. Pursuant to the listing and trading approvals granted by NSE and BSE, the Equity Shares allotted in the Issue is expected to commence trading on NSE and BSE on or about January 13, 2025. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement has been sent to NSDL & CDSL on 08<sup>th</sup> January, 2025.

**INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.**

**DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI:** The Draft Letter of Offer has not been filed with SEBI in terms of SEBI ICDR Regulations as the size is below Rs. 5,000.00 lakhs. The present Issue being of less than Rs. 5,000 lakhs, our Company is in compliance with first proviso to Regulation 3 of the SEBI ICDR Regulations and our Company shall file the copy of the Letter of Offer prepared in accordance with the SEBI ICDR Regulations with SEBI for information and dissemination on the website of SEBI i.e. [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in).

**DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (Designated Stock Exchange):** It is to be distinctly understood that the aforesaid permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by NSE; nor does it in any manner warrant, certify or endorse the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer; nor does it warrant that this Issuer's securities will be listed or will continue to be listed on the Exchange; nor does it take any responsibility for the financial or other soundness of this Issuer, its promoters, its management or any scheme or project of this Issuer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" beginning on page 146 of the LOF.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 147 of the LOF.

**THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.**

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<b>VENTURE CAPITAL AND CORPORATE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED</b> AURUM, Door No. 4-50/P-IV/57/4F & 5F, 4 <sup>th</sup> & 5 <sup>th</sup> Floors, Plot No. 57, Jayabheri Enclave Phase – II, Gachibowli, Seri Lingampally, Hyderabad, Telangana.500032. <b>Tel No:</b> 040-23818475/76 <b>E-mail ID:</b> <a href="mailto:rights@vccipl.com">rights@vccipl.com</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.vccipl.com">www.vccipl.com</a> <b>Contact Person:</b> Mr. P V Srinivasa Rao <b>SEBI Registration No:</b> INR000001203	<b>Mr. C. Siva Kumar Reddy,</b> 3 <sup>rd</sup> Floor, Aparna Crest, 8-2-120/112/88 & 89, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Khairatabad, Telangana, India, 500034 <b>Email:</b> <a href="mailto:secretarial@viceroypatel.in">secretarial@viceroypatel.in</a> <b>Website:</b> <a href="http://www.viceroypatel.in">www.viceroypatel.in</a> ; <b>Tel:</b> +91 040 40204383 Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre- Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

Date: 09<sup>th</sup> January, 2025  
Place: Hyderabad, Telangana

Disclaimer: Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer dated November 29, 2024 with the Securities and Exchange Board of India, NSE and BSE. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of Stock Exchanges where the Equity Shares are listed i.e. NSE and BSE at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 25 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.

पटबैक बिजनेस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गोंय में 325, वॉट नंबर 3, अग्रवाल प्लाजा, डीडीए कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085,  
ईमेल: [crazypricingdel@gmail.com](mailto:crazypricingdel@gmail.com) वेबसाइट: [www.patback.in](http://www.patback.in)  
फोन नंबर 011-27860680, सॉआईन: L74999DD.1984PLC018747

31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए स्टैंडअलोन अलेक्सापरीक्षित वित्तीय परिणामों के अंश

क्रं.		विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2024 (अलेक्सापरीक्षित)	नौ महीने की समाप्ति पर वर्ष से तिथि का अंश 31.12.2024 (अलेक्सापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेक्सापरीक्षित)
1.		संचालन से कुल आय	4993.624	3112.41	922.88
2.		अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और व्या असाधारण मदों के बाद)	54.45	48.63	(3.74)
3.		कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और व्या असाधारण मदों के बाद)	54.45	48.63	(3.74)
4.		कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और व्या असाधारण मदों के बाद)	42.22	36.39	(3.74)
5.		अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	42.22	36.39	(3.74)
6.		इंटरमीडियेट शेयर कैपिटल	1024.80	1024.80	24.80
7.		अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद))	443.16	443.16	73.14
8.		प्रति शेयर आय (सममूल्य रूप 10/- प्रत्येक का ) (वर्षा और वंद परिणाम के लिए)	0.41	0.36	(1.51)
		1. अंशक	0.41	0.36	(1.51)
		2. डाइवेंड	0.41	0.36	(1.51)

टिप्पणी: 1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल किया गया। तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.patback.in](http://www.patback.in) और स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की वेबसाइट [www.mseil.in](http://www.mseil.in) पर उपलब्ध है।

3. विशेष परिणाम, एंड एक्सेल-निर्माण (संशोधित) के साथ प्रतिष्ठित कंपनी अविनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित किए गए अनुसार भारतीय वित्त मानकों (इंड-एक्सेल) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से पटबैक बिजनेस लिमिटेड

हस्तां/-

पवन कुमार सिन्हा (निदेशक)  
सॉआईन : 00749265

दिनांक: 09.01.2025  
स्थान : नई दिल्ली

सर्वजनिक सूचना

(दियाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 के तहत, 2016)

मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पीजी श्री ओमिन्वांस साहा के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी) श्री ओमिन्वांस साहा

2. व्यक्तिगत गारंटर का पंजीकृत कार्यालय/ प्रधान कार्यालय/ निवास का पता

3. निर्णय प्राधिकारी के आदेश का विवरण

4. दियाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि

5. समाधान प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या

6. समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है।

7. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई-मेल

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

9. प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दाखल किया जाना है

माननीय एनसीएलटी, पीठ-III, नई दिल्ली ने मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री ओमिन्वांस साहा के मामले में आईए संख्या 5281 / 2024 में आईबी संख्या 82 / एनसी / 2023 में आईबीसी, 2016 की धारा 100 के तहत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया शुरू की है।

07 जनवरी, 2025

श्री अनूप कुमार पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911  
वैबर नंबर 734, लॉयर्स वैबर ब्लॉक, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली-110054  
ईमेल: [sachanilawanalyst@gmail.com](mailto:sachanilawanalyst@gmail.com)  
सी-708, आई-बम टावर-सी, वॉल्ट नं. 40 ए, सैक्टर-62 नोएडा पूर्वी-203101  
ईमेल: [ip.acre@gmail.com](mailto:ip.acre@gmail.com)

31 जनवरी 2025  
<https://ibbi.gov.in/home/downloads>

एकबार सूचित किया जाता है कि न्याय निर्णायक प्राधिकारी एनसीएलटी, पीठ-III, नई दिल्ली ने आईए संख्या 5281 / 2024 आईबी संख्या 82 / एनसी / 2023 में आदेश दिनांक 07.01.2025 के तहत आईबीसी 2016 की धारा 100 के अंतर्गत श्री ओमिन्वांस साहा के भारतीय दिवाल और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए दियाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 7 (1) के तहत "कॉर्पोरेट बी" में 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले प्रमाण के साथ समाधान प्रोफेशनल को प्रविष्टि संख्या 7 के सामने उपलब्धित पत्र पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, सीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रमाण, दावों के विवरण और व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

दावे के झूठे या धाग्रक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

श्री अनूप कुमार समाधान प्राधिकारन

दिनांक : 10.01.2025  
स्थान : दिल्ली

श्री ओमिन्वांस साहा, मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पीजी आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911  
एएफए प्रमाणपत्र सं. : AA2/10911/02/311225/203470। वैधता : 31 दिसंबर 2025 तक

सर्वजनिक सूचना

(दियाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 के तहत, 2016)

मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पीजी श्री अनिल कुमार साहा के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी) श्री अनिल कुमार साहा

2. व्यक्तिगत गारंटर का पंजीकृत कार्यालय/ प्रधान कार्यालय/ निवास का पता

3. निर्णय प्राधिकारी के आदेश का विवरण

4. दियाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि

5. समाधान प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या

6. समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है।

7. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार में उपयोग के लिए पता और ई-मेल

8. दावे जमा करने की अंतिम तिथि

9. प्रासंगिक प्रपत्र जिनमें दावा दाखल किया जाना है

माननीय एनसीएलटी, पीठ-III, नई दिल्ली ने मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के व्यक्तिगत गारंटर श्री अनिल कुमार साहा के मामले में आईए संख्या 5288 / 2024 आईबी संख्या 79 / एनसी / 2023 में आदेश दिनांक 07.01.2025 के तहत आईबीसी 2016 की धारा 100 के अंतर्गत श्री अनिल कुमार साहा के भारतीय दिवाल और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटर के लिए दियाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 7 (1) के तहत "कॉर्पोरेट बी" में 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले प्रमाण के साथ समाधान प्रोफेशनल को प्रविष्टि संख्या 7 के सामने उपलब्धित पत्र पर अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

लेनदारों को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या कूरियर, सीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रमाण, दावों के विवरण और व्यक्तिगत जानकारी के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे।

दावे के झूठे या धाग्रक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

श्री अनूप कुमार समाधान प्राधिकारन

दिनांक : 10.01.2025  
स्थान : दिल्ली

श्री अनिल कुमार साहा, मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पीजी आईपी पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00333/2017-18/10911  
एएफए प्रमाणपत्र सं. : AA2/10911/02/311225/203470। वैधता : 31 दिसंबर 2025 तक

सर्वजनिक सूचना

(दियाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की धारा 102 के तहत, 2016)

मेसर्स साहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पीजी श्रीमती नीता साहा के लेनदारों के ध्यानार्थ

प्रासंगिक विवरण

1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम (पीजी) श्रीमती नीता साहा

2. व्यक्तिगत गारंटर का पंजीकृत कार्यालय/ प्रधान कार्यालय/ निवास का पता

3. निर्णय प्राधिकारी के आदेश का विवरण

4. दियाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तिथि

5. समा